



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1970/वौष 7, 1892

No. 461] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER, 28, 1970/PAUSA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December 1970

S.O. 4097.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends upto the 31st March, 1971, the period within which the Commission of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by notification No. S.O. 1520, published at pages 681 and 682 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 23rd April, 1970, shall make its report to the Central Government.

[No. 31/13/70-Poll.I(A)]

T. C. A SRINIVASAVARADAN, Joint Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 4097.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60 वां) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत सरकार एतद्वारा उस अधि की 31 मार्च,

(2011)

1971 तक बढ़ाती है, जिसमें 23 अप्रैल, 1970 के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में पृष्ठ 681 और 682 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या परिणियत आदेश 1520 के अधिन भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में नियुक्त जांच आयोग, अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को देगा।

[सं० 31/13/70-पोल I (ए)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव।